

## वशिेष: येरुशलम! येरुशलम!! येरुशलम!!!

### संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

दुनियाभर में हो रही आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए आखरकार अमेरिका ने 14 मई को अपना दूतावास इज़राइल के तेल अवीव से हटाकर येरुशलम शहर में खोल दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री इवांका ट्रंप भी इस अवसर पर वहाँ मौजूद थीं। अमेरिका और इज़राइल का कहना है कि उनका यह कदम इस क्षेत्र में शांति कायम करने में सहायक होगा, वहीं तमाम अरब देश तथा अमेरिका के सहयोगी पश्चिमी देशों ने इसे क्षेत्र में अस्थिरता और उकसावे को बढ़ाने वाला कदम बताया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 7 दिसंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का दूतावास येरुशलम ले जाने का ऐलान किया था।

- अमेरिका ने पिछले साल दिसंबर में येरुशलम को इज़राइल की राजधानी घोषित कर दिया था।
- उल्लेखनीय है कि ऐसा करने के लिये अमेरिका में 1995 में 'येरुशलम दूतावास कानून' बनाया गया था, जिसके अनुसार अमेरिका का इज़राइली दूतावास येरुशलम में होना चाहिये।
- लेकिन बलि क्लटिन और जॉर्ज बुश से लेकर बराक ओबामा तक सभी अमेरिकी राष्ट्रपति इसे बेहद विवादित मानते हुए टालते रहे और हर 6 महीने बाद इस कानून से छूट लेने वाले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते रहे।
- लेकिन पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यहूदी मतदाताओं को लुभाने के लिये डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी शामिल किया था।
- विश्व में अमेरिका को इज़राइल का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है और दोनों के बीच बेहद घनिष्ठ सैन्य और तकनीकी संबंध हैं।
- वदिति हो कि 1948 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन पहले अंतरराष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने इज़राइल को अलग देश के रूप में मान्यता दी थी।
- येरुशलम में अब तक किसी भी देश का दूतावास नहीं था, अमेरिका पहला देश है जिसने यहाँ दूतावास खोला है। इसके अलावा लगभग 86 देशों के दूतावास तेल अवीव में हैं, जो येरुशलम से लगभग 70 किलोमीटर दूर हैं।
- इज़राइली प्रधानमंत्री का आवास और कार्यालय तथा वहाँ की संसद और सुप्रीम कोर्ट भी येरुशलम में ही हैं।

यहाँ यह बता देना भी ज़रूरी है कि अमेरिका के इस फैसले के बाद लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला और पराग्वे ने भी अपने दूतावास येरुशलम ले जाने का ऐलान किया है। इनके अलावा होंडुरास और चेक गणराज्य ने भी ऐसा करने के संकेत दिये हैं। वैसे दुनिया के अधिकांश देश पूरे येरुशलम पर इज़राइल के दावे को मान्यता नहीं देते और दूतावासों के मामलों में यथास्थिति बनाए रखने के पक्षधर हैं।

### क्या कहना है अमेरिका का?

- इज़राइल एक स्वायत्त देश है और उसे अपनी राजधानी को लेकर फैसला करने का भी अधिकार है, लेकिन कई सालों तक हम इस स्पष्ट बात को पहचानने में असफल रहे।
- अमेरिका दोनों देशों (इज़राइल और फिलिस्तीन) के बीच लंबे समय तक टकिये वाला शांति समझौता कराने के लिये भी प्रतबिद्ध है।

### भड़क उठी हिसा

अमेरिका के इस फैसले के बाद इलाके में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इज़राइली सेना के बीच संघर्ष में सैकड़ों फिलिस्तीनी हताहत हो चुके हैं। इज़राइली सेना का कहना है कि गाज़ा सीमा के नजिक करीब 35 हजार फिलिस्तीनी नागरिक हसिक दंगों में शामिल थे और जवाब में की गई कार्रवाई नयिमों के तहत थी। दूसरी ओर, फिलिस्तीन में सत्तारूढ़ 'हमास' का कहना है कि वह फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार हासिल करने को प्रतबिद्ध है। उसका मानना है कि इस फैसले से अमेरिका ने सीधे तौर पर येरुशलम को इज़राइल का हिस्सा मान लिया है, जबकि शहर के पूर्वी हिस्से पर फिलिस्तीन अपना दावा करता है।

- 30 मार्च से शुरू हुए फिलिस्तीनी वरिध प्रदर्शनों का दौर 15 मई को समाप्त हुआ, जसि ग्रेट मार्च ऑफ रटिर्न नाम दिया गया था, क्योंकि 15 मई को फिलिस्तीन में नकबा (क्यामत) के तौर पर मनाया जाता है।
- 1948 में 15 मई के दिन ही इज़राइल अलग देश बना था, जसिके चलते हजारों फिलिस्तीनियों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा था।
- गौरतलब है कि 30 मार्च को फिलिस्तीन ज़मीन दविस के तौर पर मनाता है, क्योंकि इसी दिन 1976 में फिलिस्तीन पर इज़राइल के कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 6 नागरिकों को इज़राइली सेना ने मार दिया था।

(टीम दृष्टि इनपुट)

संयुक्त राष्ट्र में हुआ अमेरिका का वरिध

- येरुशलम को लेकर अमेरिका के इस फैसले के लगभग 15 दिन बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अमेरिका से येरुशलम को इज़राइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के फैसले को वापस लेने को कहा।
- भारत सहित 128 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि केवल 9 देशों ने ही प्रस्ताव के वरिध में वोट दिया और मैक्सिको तथा कनाडा सहित 35 देश अनुपस्थित रहे।
- इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सभी देश येरुशलम में अपने राजनयिक मिशनों को स्थापित करने से बचें।
- अमेरिका का साथ देने वालों में कोई बड़ा देश शामिल नहीं था। इज़राइल के अलावा ग्वाटेमाला, हॉन्डुरास, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, पलाउ, टोगो और अमेरिका ने प्रस्ताव के वरिध में वोट दिया।

वदिति हो कि 2012 में संयुक्त राष्ट्र में पारित प्रस्ताव के तहत फलिसितीन को 'पर्यवेक्षक देश' का दर्जा मिला हुआ है।

### इज़राइल के लिये क्या हैं इसके मायने?

इज़राइल के लिये संयुक्त राष्ट्र का यह प्रस्ताव बताता है कि उसे यथास्थिति बनाए रखनी चाहिये। हालाँकि ज़्यादातर इज़राइली येरुशलम को अपनी राजधानी मानते हैं और शहर पर इज़राइल का ही नियंत्रण है, लेकिन कई देश इसे इज़राइल का अवैध कब्ज़ा कहते हैं। 2016 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर 1967 से अपने कब्ज़े में लिये फलिसितीनी क्षेत्र के दर्जे और जनसंख्या में बदलाव के उद्देश्य से की जा रही कार्रवाई के लिये इज़राइल की नदि की थी।

### इज़राइल ने बनाया है नया कानून

इज़राइल की संसद ने येरुशलम पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिये एक वरिध कानून पारित किया है। इसके तहत इज़राइल की सरकार को येरुशलम के किसी भी हिस्से पर अपना दावा छोड़ने के लिये अब संसद में सामान्य बहुमत की जगह दो-तर्हिाई सांसदों के समर्थन की ज़रूरत होगी। इज़राइल की संसद में 120 सदस्य हैं और इस कानून के पारित होने के बाद अब 80 सदस्यों के समर्थन के बाद ही कोई सरकार येरुशलम या उसके किसी हिस्से पर अपना दावा छोड़ पाएगी। इज़राइल के इस कदम को शांति प्रयासों के लिये बड़ी बाधा माना जा रहा है।

### फलिसितीन पर क्या होगा असर?

यह प्रस्ताव एक तरह से फलिसितीन का समर्थन है और वैसे भी संयुक्त राष्ट्र फलिसितीन के संघर्ष को लेकर हमेशा सहानुभूति रखता आया है। फलिसितीन का नेतृत्व मानता है कि अमेरिका को छोड़कर बाकी देश उसके अच्छे सहयोगी हैं। फलिसितीन संयुक्त राष्ट्र व अन्य वैश्विक मंचों पर अपने प्रयास जारी रखेगा जिससे फलिसितीन पर अवैध कब्ज़े को खत्म किया जा सके।

### (टीम वृष्ट इनपुट)

### तीन धर्मों के लिये समान रूप से पवतिर है ऐतहासिकि येरुशलम

यहूदियों, मुसलमिों और ईसाइयों की समान आस्था का केंद्र है यह शहर। दरअसल, पैगंबर अब्राहम या इब्राहीम इन तीनों ही धर्मों के पतिमह माने जाते हैं और येरुशलम को इनका शहर माना जाता है। इनके अलावा भी लगभग एक दर्जन ऐसे पैगंबर हुए हैं, जिनमें तीनों ही धर्मों को मानने वालों की आस्था है।

इसीलिये येरुशलम एक ऐसा नाम है जो ईसाइयों, मुसलमिों और यहूदियों के दिल में सदियों से वदिति अतीत के बीच बसता आ रहा है। यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक है, जसि बार-बार जीता गया...यह बार-बार तबाह हुआ...बार-बार उठ खड़ा हुआ। तात्पर्य यह कि इसका ज़र्रा-ज़र्रा इसे इसकी अतीत की पहचान से जोड़ता है।

संकरी गलियों और ऐतहासिकि स्थापत्य वाला पुराना शहर इसके चार हिस्सों को चार अलग-अलग मतों-ईसाइयों, मुसलमिों, यहूदियों और आर्मेनियाइयों से जोड़ता है। यह चारों ओर पत्थर की दीवारों से घिरा है और यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं, जनिहें दुनिया के पवतिरतम स्थलों में गनिा जाता है। इसका हर हिस्सा अपनी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।

### होली चर्च

ईसाई हिस्से में पवतिर सेपुलकर चर्च है, जो दुनियाभर के ईसाइयों के लिये वशिषिट है। यह एक ऐसी जगह है जो ईसा मसीह गाथा का केंद्र है। ईसाई मतावलंबी मानते हैं कि ईसा मसीह को यहीं सूली पर लटकाया गया था और यही वह स्थान भी है जहाँ ईसा फरि जीवति हुए थे। यह दुनियाभर के लाखों ईसाइयों का मुख्य तीर्थस्थल है, जो ईसा के खाली मकबरे की यात्रा करते हैं। इस चर्च का प्रबंध संयुक्त तौर पर ईसाइयों के अलग-अलग संप्रदाय करते हैं।

### मुकद्दस मस्जिदि

इसका मुसलमि हिस्सा इन चारों में सबसे बड़ा है। यहीं पवतिर गुंबदाकार 'डोम ऑफ रॉक' यानी कुवतुल सखरह और अल-अक्सा मस्जिदि है। यह एक पठार पर स्थिति है जसि मुसलमि 'हरम अल शरीफ' या पवतिर स्थान कहते हैं। यह मस्जिदि इस्लाम की तीसरी सबसे पवतिर जगह है, इसकी देखरेख और प्रशासन का ज़िम्मा एक इस्लामिकि ट्रस्ट करता है, जसि वक्फ भी कहा जाता है। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर अपनी रात्रि यात्रा में मक्का से यहीं आए थे और उन्होंने आत्मिकि तौर पर सभी पैगंबरों से दुआ की थी। कुवतुल सखरह से कुछ ही दूरी पर एक आधारशिला रखी गई है जसिके बारे में मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे।

### पवतिर दीवार

येरुशलम का कोटेल या पश्चिमी दीवार का हिस्सा यहूदी बहुल माना जाता है क्योंकि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर था और यह दीवार उसी की बची हुई नशानी है। यहाँ मंदिर के अंदर यहूदियों की सबसे पवित्रतम जगह 'होली ऑफ होलीज़' है। यहूदी मानते हैं यहीं पर सबसे पहले उस शाला की नींव रखी गई थी, जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ और जहाँ अब्राहम ने अपने बेटे इसाक की कुरबानी दी थी। पश्चिमी दीवार, 'होली ऑफ होलीज़' की वह सबसे करीबी जगह है, जहाँ से यहूदी प्रार्थना कर सकते हैं। इसका प्रबंध पश्चिमी दीवार के रबबी करते हैं।

- विश्व के सबसे प्राचीन और पवित्र माने जाने वाले शहर येरुशलम पर 1967 में इज़राइल का कब्ज़ा हो गया था और उसने 1980 में इसे अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की थी।
- जहाँ इज़राइल येरुशलम को अपनी राजधानी बताता है, वहीं फलिसतीन भी इस शहर पर अपना दावा यह कहते हुए करता है कि 1967 में इज़राइल के नियंत्रण से पहले यह उसके कब्ज़े में था।

### भारत की फलिसतीन नीति

बेशक भारत ने लंबे समय तक इज़राइल से कूटनीतिक संबंध नहीं रखे, लेकिन 1992 में इज़राइल से भारत के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने और अब यह रणनीतिक संबंध में परिवर्तित हो गए हैं तथा अपने उच्च स्तर पर हैं। दूसरी ओर, भारत-फलिसतीन संबंध प्रारंभ से ही काफी घनिष्ठ रहे हैं तथा भारत फलिसतीन की समस्याओं के प्रति काफी संवेदनशील रहा है।

- फलिसतीन मुद्दे के साथ भारत की सहानुभूति और फलिसतीनियों के साथ मतिरता समय की कसौटी पर खरी उतरे, यह भारतीय विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है।
- 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलिसतीन विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था।
- भारत पहला गैर-अरब देश था, जिसने 1974 में फलिसतीनी जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में फलिसतीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान की थी।
- भारत 1988 में फलिसतीनी राज्य को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा में 29 नवंबर, 2012 को फलिसतीन के दर्जे को एक गैर-सदस्य राज्य के दर्जे में स्तरोन्नत किया गया। भारत ने इस संकल्प को सह-प्रायोजित किया और इसके पक्ष में मतदान किया था।
- भारत ने जुलाई 2014 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी फलिसतीन के पक्ष में मतदान किया।
- भारत ने अप्रैल 2015 में एशिया-अफ्रीका संस्मारक शिखर बैठक में फलिसतीन पर बांडुंग घोषणा का समर्थन किया था।
- सितंबर 2015 में सदस्य राज्यों के ध्वज की तरह अन्य परेक्षक राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र परिसर में फलिसतीनी ध्वज लगाने का भी भारत ने समर्थन किया था।

### येरुशलम विभाजन का संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव

- संयुक्त राष्ट्र ने अरब और यहूदियों का क्षेत्र में टकराव देखते हुए फलिसतीन को दो हिस्सों--अरब राज्य और यहूदी राज्य (इज़राइल) में विभाजित कर दिया।
- इसाइयों, अरबों और यहूदियों तीनों के लिये धार्मिक महत्त्व का क्षेत्र होने के कारण येरुशलम को अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन के अंतर्गत रखे जाने का प्रस्ताव 29 नवंबर, 1947 को पारित हुआ था।
- यहूदियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अरबों ने इसे नकार दिया। इस प्रस्ताव के तहत फलिसतीन को दो बराबर हिस्सों--अरब राज्य और यहूदी राज्य (इज़राइल) में विभाजित किया जाना था।
- इस विभाजन में सीमा तय करना काफी जटिल और उलझा हुआ था, इसलिये शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि इसे लागू करना बेहद कठिन है।
- 1948 के मई महीने में ब्रिटेन की सेनाएँ वापस लौट गईं, लेकिन तब तक इज़राइल और फलिसतीन की वास्तविक सीमा रेखा निर्धारित नहीं हो पाई थी और यहूदियों तथा फलिसतीनियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया।
- इसके एक साल बाद येरुशलम का बँटवारा हुआ और यह पूर्वी तथा पश्चिमी दो हिस्सों में बँट गया।
- पूर्वी भाग पर फलिसतीनियों का और पश्चिमी भाग पर इज़राइल का नियंत्रण हो गया।
- 1967 में इज़राइल और अरब देशों के बीच हुई 'सिक्स डे वॉर' में इज़राइल ने पूर्वी येरुशलम पर भी कब्ज़ा कर लिया।

(टीम दृष्टि इनपुट)

**नधिकर्ष:** इस मुद्दे पर संघर्ष की सबसे बड़ी वजह येरुशलम पर होने वाला फलिसतीन और इज़राइल में विवाद है। दोनों ही इस पर अपना अधिकार बताते रहे हैं। यहां की सीमा पर आए दिन झड़पों की खबरें भी सामने आती रहती हैं। 1948 से लेकर अब तक येरुशलम को लेकर फलिसतीन और इज़राइल के बीच विवाद चल रहा है। पछिले वर्ष 7 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने येरुशलम को इज़राइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देते हुए अपना दूतावास पवित्र कति विवादास्पद शहर येरुशलम ले जाने की बात कही थी। उन्होंने 14 मई को इसे तब सच कर दिखाया, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये इसका औपचारिक उद्घाटन किया। यह स्वाभाविक था कि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जहाँ इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं फलिसतीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसे अस्वीकार्य और एकतरफा कदम बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयासों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका की विदेश नीति सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि इस मुद्दे ने इज़राइल, अमेरिका या फलिसतीन ही नहीं, बल्कि मध्य-पूर्व के देशों सहित पूरी दुनिया को प्रभावित किया है।

